



केन्द्रीय विद्यालय.2, सम्बलपुर
KENDRIYA VIDYALAYA NO 2, SAMBALPUR
(Under Ministry of Education, Govt. of India)
बुर्ला, संबलपुर - 768017 At/Post: Burla, Sambalpur-768017
E-mail: kvsambalpur2@gmail.com, Tel: (0663)-2960438,
Website: <https://no2sambalpur.kvs.ac.in>

Date: 23/08/2021

ADMISSION NOTICE (CLASS – XI SCIENCE for session 2021-22)

As a few seats are vacant, Applications are invited from the NON-KV STUDENTS for admission into Class XI Science (2021-22) in Kendriya Vidyalaya No 2 Sambalpur (Burla). The registration form is available in the Vidyalaya Website <https://no2sambalpur.kvs.ac.in> from dt.23.08.2021 onwards. The last date of submission of Complete Registration form to this office is 26.08.2021 upto 4 PM. No extension of last date will be entertained. The Registration for NON – KV students (affiliated to CBSE/ICSE/BSE) will be considered after accommodating the eligible students of Kendriya Vidyalaya (if vacancy exists). The eligibility criteria required for admission into Class XI science is minimum 60% of marks as per the KVS (HQ), New Delhi Admission Guidelines 2021-22. Admission will be granted as per the admission guidelines of KVS (HQ) New Delhi.

NOTE: - Mere registration doesn't confer admission into Class XI Science.

LIST OF THE DOCUMENTS TO BE SUBMITTED:

1. Filled in registration form
2. Copy of Mark sheet of Class X (Self Attested)
3. Migration Certificate (for State Board /ICSE / NIOS)
4. ADHAAR Card of the Child.
5. Address Proof (Voter Id / Bank Passbook / Gas Connection / Electricity Bill) on the name of the parents of the candidate or Residence Certificate issue by the competent authority in the name of the candidate.
6. Blood group report of the child.
7. Service Certificate (in case of regular Central / State Govt. / PSU Employee) along with the number of Transfers.
8. Certificate from Employer
9. Caste Certificate in case SC/ST/OBC category.
10. Birth Certificate of the Child.
11. Transfer Certificate of the child counter signed by DEO in case if State / ICSE Board.
12. A recent affidavit sworn in before the Executive Magistrate for Single Girl Child.

Ganesh Padhan
23-08-2021
PRINCIPAL
प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय संगठन - Kendriya Vidyalaya No.2
सम्बलपुर - 768017 / Sambalpur-768017

KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 SAMBALPUR (BURLA)

REGISTRATION FOR ADMISSION TO CLASS XI

SESSION: 2021-22

Please paste a
passport size
photo here

1. Name of the student _____
2. Date of Birth _____
3. Admission No.(Last 4 digit of UID) _____
4. Mother's Name:- _____
5. Father's Name _____
6. Occupation of Parents and category(Central Govt./Central Govt. PSU, Autonomous, IHL/State Govt./State Govt. PSU, Autonomous, IHL/ Other)

Father	_____
Mother	_____

7. Income Details: **Father's** Basic Pay Grade Pay or Level
Mother's Basic Pay Grade Pay or Level

8 a) Address for Correspondence _____

(b) Telephone No./Mobile (O) _____ (R) _____

9. Whether belongs to SC/ST/OBC (Non-Creamy)/Differently Abled/SGC
(Enclose attested copy of certificate from competent authority)

10. (a) Name of Examination last passed & year _____
(b) Name of Examining Board _____
(c) Name & Address of the School last attended _____
(d) Whether it was Kendriya Vidyalaya/ Recognized school/Unrecognized school _____

11. (a) Details of Marks obtained in Board Examination

Attach self attested copy of marks sheet.

English 100	Hindi/Sanskrit 100	Maths 100	Science 100	So. Science 100	Total 500	Percentage

(b) Total of Marks in Maths & Science taken together _____

(c) Participation/ Certificate in SGFI/ KVS National/ Regional/ NCC/ Sc& Guide/Adventure Activities

12. Academic subject combinations available.

Group-A	English-core	Physics	Chemistry	Maths	Biology
Group-B	English-core	Physics	Chemistry	Biology	Hindi-core
Group-C	English-core	Physics	Chemistry	Maths	Comp. Sc.
Group-D	English-core	Physics	Chemistry	Maths	Hindi core

13. Subject combination for which admission is requested (Give preference, Gr-A/Gr.B/Gr.C/ Gr.D)

First _____ Second _____

I undertake that the options given above are final. I will not request for any change later on.

Signature of student _____ Signature of parent with Date _____

Note

1. Concession of marks will Be allowed to participants of sports/Games/ Scout-Guides/Adventure activities and SC/ST candidates as per KVS rules.

2. Mere submission of Option Form will not confer any right of admission. Admission will be granted as per KVS Rules.

REMARKS BY I/C Admission: I have verified the details of Ma./ Miss. _____ and he/she is eligible for Science stream with subjects 1. English, 2) Physics 3) Chemistry 4) _____ 5) _____

Group allowed _____

I/C Admission

Principal



केन्द्रीय विद्यालय नं.-२ सम्बलपुर
KENDRIYA VIDYALAYA No.2 SAMBALPUR

पंजीकरण संख्या /REG. NO.:

पंजीकरण पत्र / REGISTRATION FORM

क्रम सं. / S.No.

श्रेणी / Category:

सत्र / Year :20 -20

बच्चे का फोटो
(पासपोर्ट साइज का)
Photograph
of the child
(Passport size)

पंजीकरण के लिए कक्षा / Registration for Class _____

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)

Name of the child in full (in Capital letters) _____

लिंग / Sex : पुरुष / Male स्त्री / Female तृतीय लिंग / Third Gender

2. जन्म तिथि(अंकों में) Date of Birth (In figure) : दिन /Day मास /Month वर्ष /Year

शब्दों में / (in words) _____

31.03.20 तक आयु / Age as on 31.03.20 : दिन /Day मास / Months वर्ष /Year

(Attach attested copy of Birth Certificate)

3. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित) Blood Group of the child (with Rh factor)

(Attach proof)

4. बच्चे की संबन्धित श्रेणी / Category to which child belongs to:

सामान्य अनु. जाति अनु. ओ.बी.सी आर्थिक रूप से बी.पी.एल अन्य रूप इकलौती कन्या
General SC जनजाति OBC कमजोर वर्ग BPL से सक्षम SG Child
ST EWS Diff. Abled

यदि बच्चा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओ.बी.सी (अन्य पिछड़े वर्ग) / आर्थिक रूप से कमजोर / बी.पी.एल / अन्य रूप से सक्षम / इकलौती कन्या श्रेणी से संबन्धित है तो कृपया संबन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

If the child belongs to SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G.category, then please attach recent relevant certificate.

5. माता/पिता का विवरण / Details of Mother/Father

क्र.सं/S.No	माता / Mother	पिता / Father
(i) नाम (स्पष्ट शब्दों में) / Name (in Capital letters)		
(ii) राष्ट्रियता / Nationality		
(iii) व्यवसाय / Occupation		
(iv) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष, Name of Office and full address with Telephone numbers		
(v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित) Full residential address with Telephone numbers (with proof)		

contd.p.2.

क्र.सं./S.No.		माता / Mother	पिता / Father
5.			
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी. में) Distance from KV(in km)*		
(vii)	मूल वेतन Basic Pay (Attach salary slip)		
(viii)	स्थानान्तरणों की संख्या No. of transfers**		
(ix)	माता-पिता की श्रेणी Category of Parents#		
(x)	कर्मचारी कोड(यदि है तो) Employee Code (if any)		

* विद्यालय से आवास की दूरी के लिए माता-पिता अभिभावक का शपथ पत्र मान्य है। आवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
Distance of residence from Vidyalaya - Undertaking from parents is acceptable for distance. Proof of residence is compulsory.

** 31.03.20 तक पिछले सात वर्ष में स्थानान्तरणों की संख्या / No. of transfers during last 7 years as on 31.3.20

(1) केन्द्रीय सरकार / Central Govt. (2) केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थान Autonomous bodies of Central Govt. (3) राज्य सरकार / State Govt. (4) राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान / Autonomous bodies of State Govt. (5) अन्य / Others.

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं।
I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

माता / पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर
Signature of Mother / Father / Guardian

पूरा नाम / Full Name.....

दिनांक / Date :

सेवा प्रमाण पत्र / SERVICE CERTIFICATE (केन्द्रीय सरकार / Central Government)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त - पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानान्तरणीय है / पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानान्तरणीय है।

Certified that Shri / Smt. _____ is working as regular employee in the Office / Ministry of _____. He/She is a regular employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector undertaking fully financed /partially financed by the Central Govt. and his / her services are non-transferable / transferable anywhere in India.

स्थान / Place _____

दिनांक / Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या

Complete address and Telephone No. of office _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation and office stamp)

सेवा प्रमाण पत्र / SERVICE CERTIFICATE (State Government)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानान्तरणीय है / पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानान्तरणीय है।

Certified that Shri / Smt. _____ is permanently working in the Office / Ministry of _____ and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in the State.

स्थान / Place _____

दिनांक / Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या

Complete address and Telephone No. of office _____

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
Signature & Name in block letters and designation of the head of office with stamp

दूरभाष / Telephone

स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं, _____ (नाम). _____ (रैंक/ पदनाम)
 _____ (कार्यालय), एतद् द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (31.03.20 . तक) में एक
 स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे _____ (अंकों व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है
 I, _____ (Name) _____ (rank / designation)
 of _____ (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.20 .) I have
 been transferred _____ times (in figures & in words) from one station to another, the details of
 which are given as under :-

क्र.सं. S.No.	कार्यालय का पता Office/Unit & Place	पद ग्रहण की तिथि Dt. of joining Office/Unit	पद त्यागने की तिथि Date of release Office/Unit	उहरने की अवधि / Period of stay (in months)	स्थानांतरित कार्यालय / Transferred office/ Unit & Place	दो कार्यालयों के मध्य की दूरी Distance between the two office (in kms.)	स्थानांतरण आदेश संख्या Transfer Order No.
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							

मैं जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाएगा ।

I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर
Signature of Parent

पावती / ACKNOWLEDGEMENT

क्रम.सं छव SI.No. _____ पंजीकरण संख्या/ Registration No.....
 श्री श्रीमती.....से उनके पुत्र/ पुत्री.....
 को कक्षा..... में प्रवेश हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त किया ।

Received an application from Shri/Smt _____ for
 registration of her / his son/daughter _____ for admission to class _____.

दिनांक / Date _____

प्राचार्य / Principal
 केन्द्रीय विद्यालय (गुद्रांक)
 Kendriya Vidyalaya (Stamp)

प्रतिहस्ताक्षर / COUNTERSIGNATURE

में, (नाम) (रैंक / पदनाम)
..... (कार्यालय), एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को
कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही पाया गया है।

I, (name) (rank/designation) of
..... (unit/department) hereby certify that the particulars given in above have
been authenticated by the records held in the office and found correct.

स्थान / Place _____

दिनांक / Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या
Complete address
and Telephone No. of office _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office

(With Name, Designation and Office Stamp)

टिप्पणी / Note- एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।
Minimum period of posting/ stay at a place should be minimum six months

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE

(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमारी स्वर्गीय
श्री/ श्रीमती के पुत्र / पुत्री हैं जो
(कार्यालय / विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे / थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक
..... को हो गया था।

Certified that Master/Miss _____ is the son /daughter of
Late Sh./Smt. _____ who was regular employee of _____
(Office / Department) and he/she died in harness (while in service) on _____ (date).

स्थान / Place _____

दिनांक / Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या
Complete address and Telephone No. of office _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and office stamp)

Documents required with Registration Form

1. Attested copy of Date of birth Certificate issued by competent authority.
2. Attested copy of certificate issued by competent authority for SC/ST/PH/Disadvantaged group if applicable (for admission under RTE).
3. A recent Affidavit sworn in before the Executive Magistrate for single girl child only (for Class I & VI onwards).
4. Proof of residence (Voter Id/Telephone or Electric Bill, etc.)
5. Undertaking by the parent about the distance from residence to the school.
6. Relation Certificate for grandchildren of KVS employees.
7. Proof of transfers during the last 7 years (if any)
8. Attested copy of Aadhar Card of the child.
9. Clinical proof of Blood Group with RH factor.
10. Copy of the telephone bill in case of land line / post paid connection.

Note: For more information, visit to KVS website: www.kvsangathan.nic.in

CERTIFICATE FROM THE EMPLOYER

(Regarding Status of Employment & identification of Admission Category in KVS)

I Sri/Smt./Ms. _____ (Name of the Employer) ,
designation _____ working in the office of
_____ department of _____ , government of
_____ do hereby certify the following in respect of Sri/Smt./Ms.
_____ (Name of the Employee) whose son/daughter
_____ (Name of the Child) is seeking admission in Kendriya
Vidyalaya _____

01	Name of the Child for whom admission is sought (in Block Letters)	
02	Class in which admission is sought	
03	Full name of the employee (in Block Letters)	
04	Designation of the employee	
05	Employee Code / Employee Identity No.	
06	Name of the office where the employee is presently posted	
07	Status of Employment (Whether Permanent/ Regular/ Temporary/Contractual/ Part Time/ Adhoc/Daily Wage Basis/Casual -To be written clearly)	
08	This office/organization is Central Government/Central Government Autonomous body/PSU fully or partially financed by Govt. of India/State Government/ Sate Government Autonomous Body/ PSU fully or partially finance by the state govt. (To be written clearly)	
09	Whether the employee is to be considered as an employee of Central Government/ <i>Central Government Autonomous body</i> /PSU fully or partially financed by Govt. of India/State Government/ Sate Government Autonomous Body/ PSU fully or partially finance by the state govt. (Any one of the above to be written clearly)	
10	Please write any one of the following which is applicable i.r.o. the child for whom admission is sought 1. Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India. 2. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India. 3. Children of transferable and non-transferable State Government employees. 4. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments. 5. Children from any other category	
11	Recent Pay/Salary of the Employee with proper Split up	(i) Pay Level : _____ (ii) Pay : _____ (iii) DA : _____ (iv) HRA : _____ (v) Any Other _____ (vi) Any Other : _____ (vii) Total :
12	Whether the employee is drawing the consolidated pay	YES / NO

Place: _____

Date: _____

Signature of the Certifying Authority with Seal

Complete Address of the Office:

Telephone Number: _____